

भारत-सऊदी अरब संबंध

प्रलिस के लयः

सऊदी अरब के पड़ोसी देश, सऊदी अरब के साथ व्यापार

मेन्स के लयः

भारत-सऊदी अरब संबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वाणज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री ने भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की मंत्रसित्रीय बैठक में भाग लेने के लिये सऊदी अरब का दौरा किया।



बैठक के प्रमुख नष्कर्षः

- फरवरी 2019 में सऊदी अरब द्वारा किया गए भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा को साकार करने के प्रयासों को सुव्यवस्थिति करना।
- तकनीकी टीमों द्वारा 4 व्यापक क्षेत्रों के तहत पहचाने गए सहयोग के 41 क्षेत्रों का समर्थन:
 - [कृषि और खाद्य सुरक्षा](#)
 - [ऊर्जा](#)
 - प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी

- उद्योग और बुनियादी ढाँचा
- प्राथमिकता वाली परियोजनाओं का समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन करने का संकल्प । इसमें शामिल सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं:
 - सऊदी अरब में **यूपीआई** और **रुपे कार्ड** के संचालन के माध्यम से **डिजिटल फिनिटेक** क्षेत्र में सहयोग ।
 - पश्चिमी तट पर एक रफाइनरी का निर्माण, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) बुनियादी ढाँचे में निवेश और भारत में सामरिक पेट्रोलियम भंडारण सुविधाओं के विकास सहित संयुक्त परियोजनाओं में नरितर सहयोग की दोबारा पुष्टि ।
- चर्चा में कुछ और प्रमुख बिंदु शामिल थे:
 - दोनों देशों के एकजुटि बैंकों का संस्थागत गठजोड़
 - मानकों की पारस्परिक मान्यता
 - स्टार्टअप और इनोवेशन ब्रिज की स्थापना
 - बुनियादी ढाँचे के विकास में सहयोग को मजबूत करना, विशेष रूप से निर्माण के क्षेत्र में
 - रेलवे आदि ।

भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद

- सामरिक भागीदारी परिषद की स्थापना अक्टूबर, 2019 में भारत के प्रधानमंत्री की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान की गई थी ।
- इसके दो मुख्य स्तंभ हैं:
 - राजनीतिक, सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक समति
 - अर्थव्यवस्था और निवेश पर समति
- ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के बाद भारत चौथा देश है जिसके साथ सऊदी अरब ने इस तरह की रणनीतिक साझेदारी की है ।

सऊदी अरब के साथ भारत के संबंध:

- तेल और गैस:
 - सऊदी अरब वर्तमान में भारत को कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है (इराक शीर्ष आपूर्तिकर्ता है) ।
 - भारत अपनी कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 18% और अपनी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (Liquified Petroleum Gas-LPG) आवश्यकता का लगभग 22% सऊदी अरब से आयात करता है ।
 - सऊदी अरामको, संयुक्त अरब अमीरात के एडनोक और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा महाराष्ट्र के रायगढ़ में दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड रफाइनरी की स्थापना के लिये अध्ययन किया जा रहा है ।
- द्विपक्षीय व्यापार:
 - सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार (अमेरिका, चीन और जापान के बाद) है ।
 - वृत्त वर्ष 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार 8 अरब अमेरिकी डॉलर का था ।
 - सऊदी अरब से भारत का आयात 34.01 अरब डॉलर और सऊदी अरब को 8.76 अरब डॉलर का निर्यात हुआ । वर्ष 2021 की तुलना में 49.5% की वृद्धि हुई ।
 - वृत्त वर्ष 2021-22 में सऊदी अरब के साथ व्यापार भारत के कुल व्यापार का 4.14% है ।
- भारतीय प्रवासी:
 - सऊदी अरब में 6 मिलियन भारतीय प्रवासी समुदाय सऊदी का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है और उनकी विशेषज्ञता, अनुशासन की भावना, कानून का पालन करने और शांतिप्रिय प्रकृति के कारण 'सबसे पसंदीदा समुदाय' है ।
- सांस्कृतिक संबंध:
 - हज यात्रा भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय संबंधों का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है ।
- नौसेना अभ्यास:
 - वर्ष 2021 में भारत और सऊदी अरब ने **अल-मोहद अल-हर्दि अभ्यास** नामक अपना पहला नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू किया ।

आगे की राह

- भारत, **सऊदी अरब के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों** का उपयोग इसे **अफगानिस्तान में तालिबान** को नियंत्रित करने के लिये **पाकिस्तान पर अपने प्रभाव का प्रयोग** करने के लिये राजी करने में कर सकता है ।
 - दोनों अर्थव्यवस्थाओं का एक संयुक्त सहयोगात्मक प्रयास दक्षिण-पश्चिम एशिया के उप-क्षेत्रों में परिवर्तन लाने का कार्य करेगा ।
- वर्तमान में **सऊदी अरब के साथ भारत का व्यापार घाटा 25.25 बिलियन डॉलर का है** । भारत को **वभिन्न क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान देना** चाहिये । यह हमें स्वस्थ व्यापार संबंधों का निर्माण करते हुए राज्य के साथ **व्यापार संतुलन बनाए रखने में सक्षम बनाएगा** ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न:

????????????

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन 'खाडी सहयोग परषिद' का सदस्य नहीं है? (2016)

- (a) ईरान
- (b) ओमान
- (c) सऊदी अरब
- (d) कुवैत

उत्तर: (a)

- खाडी सहयोग परषिद (GCC) अरब प्रायद्वीप में 6 देशों का गठबंधन है- बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। ईरान GCC का सदस्य नहीं है।
- यह सदस्यों के बीच आर्थिक, सुरक्षा, सांस्कृतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिये 1981 में स्थापित किया गया था तथा सहयोग एवं क्षेत्रीय मामलों पर चर्चा करने के लिये हर साल एक शिखर सम्मेलन आयोजित करता है।

अतः विकल्प (a) सही उत्तर है।

??????

प्रश्न. भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगतिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग है। पश्चिमि एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा नीतिसहयोग का वशिलेषण कीजिये। (2017)

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/india-saudi-arabia-relations>

